

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2001 (चैत्र 10, 1923).

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2001 (CHAITRA 10, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2001

सं० आर० एस०/27 (डी)/2001/20-कार्मिक—सरकारी आवासनों संबंधी समिति, राज्य सभा के अध्यक्ष के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री विजय मारस्वत की सेवाएं, जिनकी पदावधि का अवसान अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति के साथ होता था, 1 मार्च, 2001 से समाप्त हो गई है।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

18400-500-22400 रुपये के वेतनमान में संयुक्त सचिव के ग्रेड में 2 मार्च, 2001 से आगामी आवेशों तक तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जी० सी० महोत्रा, महासचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 मार्च 2001

सं० पीएफ-1159(3)/एएन-1/जीएन-4546/2001—अध्यक्ष महोदय 12750-16500 रुपये के वेतनमान में मुख्य सम्पादक के पद पर कार्यरत श्री पी० सी० चौधरी को 15100-400-18300 रुपये के वेतनमान में प्रधान मुख्य सम्पादक के ग्रेड में 7 मार्च, 2001 से आगामी आवेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जोगिन्दर सिंह, मंयुक्त सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 मार्च 2001

सं० पी०एफ० 1242(3)/एएन-1/जीएन-4552/2001—अध्यक्ष महोदय 15100-18300 रुपये के वेतनमान में निवेशक के पद पर कार्यरत श्री बाबू राम कनाधिया को

सं० पीएफ-1250(3)/एएन-1/जीएन-4547/2001—
अध्यक्ष महोदय 12000-16500 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ
सम्पादक के पद पर कार्यरत श्री शारदा प्रसाद को 12750-
375-16500 रुपये के वेतनमान में मुख्य सम्पादक के ग्रेड में
7 मार्च, 2001 से आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं
जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

सं० पी० एफ० 1715(3)/ए० एन०-I/जी० एन०-4548/
2001—अध्यक्ष महोदय 10,000-15200 रुपये के वेतनमान
में सम्पादक के पद पर कार्यरत श्री जगमोहन स्वरूप वर्मा को
12,000-375-16500 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ सम्पा-
दक के ग्रेड में 7 मार्च, 2001 से आगामी आदेशों तक सहर्ष
नियुक्त करते हैं।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

सं० पी० एफ० 2010(3)/ए० एन०-I/जी० एन०-4549/
2001—अध्यक्ष महोदय 8000-13500 रुपये के वेतनमान में
सहायक सम्पादक के पद पर कार्यरत श्री प्रहलाद मुशी को
10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में सम्पादक के ग्रेड
में 7 मार्च, 2001 से आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त
करते हैं।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बैंगलूर-560094, दिनांक 28 फरवरी 2001

सं० 2/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के
उन्नत आँकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान सिकन्दराबाद में
निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०
पद पर अस्थाई रूप में प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के
पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री क्रांती कमार टाटा	29-12-2000
2.	श्रीमती राकेश कौर	22-12-2000

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 2/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के
उन्नत आँकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान सिकन्दराबाद में
निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी० को वैज्ञानिक/
इंजीनियर-एस० डी० के पद पर स्थापनापन्न रूप में दिनांक
1 जनवरी 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति
पर नियुक्त करते हैं।

श्री/श्रीमती/कु

1. के० वी० भीमेश्वर राव
2. एम० अनार्घन राव

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 2/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के
उन्नत आँकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकन्दराबाद में
श्री लोकेश गार्ग को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी० पद पर
अस्थायी रूप में दिनांक 13-12-2000 के पूर्वाह्न से नियुक्त
करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(1)/2000-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के
विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्रीमती
के० ऊषा, वैज्ञानिक इंजीनियर-एस० डी० को वैज्ञानिक/
इंजीनियर एस० ई० पद पर स्थापनापन्न रूप में दिनांक
13-11-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति
पर नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 3/1(2)/2000-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के
विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री एस०
प्रदीप पथन, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी० का सेवा से त्याग-
पत्र दिनांक 29-9-2000 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 4/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के शार केन्द्र, श्रीहनुमकोटा में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियरों को
प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थापनापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर
नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गयी	पद जिस पर पदोन्नति की गयी	दिनांक
श्री/श्रीमती/कु				
1.	टी० गणेशकरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०	01-07-2000
2.	वी० नागिरेड्डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०	01-07-2000
3.	ताडेपल्ली सजाना	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०	03-07-2000
4.	पी० साई कमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०	03-07-2000
5.	पी० मल्ली कृष्णा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० वी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०	01-07-2000
6.	के० अनिल कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० वी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०	01-07-2000

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 4/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों—एस० डी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० ई० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-07-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :

श्री/श्रीमती/कु०

1. के० श्रीनिवास प्रसाद
2. पी० सत्यनारायण
3. सी एच० एस० संपत कुमार
4. टी० आर० के० कामेश्वर राव
5. वी० वी० वी० अजनेयलु
6. पी० राजन
7. बी० वी० सुब्बा राव

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 4/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों—एस० एफ० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों—एस० जी० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-07-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :

श्री/श्रीमती/कु०

1. वी० सोमेश्वर राव
2. जी० मुनि राजु
3. पी० एस० एन० मूर्ती
4. वी० जयप्रकाश रेड्डी
5. आर० बी० सिंह
6. एन० हनुमन्ता राव
7. वी० वीरराजु

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 4/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों—एस० सी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० डी० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-07-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

श्री/श्रीमती/कु०

1. डॉ० एस० शंकरन
2. वी० पेचालय्या
3. बाई सूर्य प्रेमराज
4. कोल्ही श्रीदेवी
5. एम० मुरली
6. एम० वरवाचार्यलु
7. टी० वरप्रसाद

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 4/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा में श्री के० नारायण, वैज्ञानिक/इंजीनियर—एच० की विशिष्ट-वैज्ञानिक के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-07-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं ।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 4/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिये गये पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 30-6-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :

क्रम सं०	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई
श्री/श्रीमती/कु०		
1.	एस० लक्ष्मी नरसिंहन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०जी०
2.	जी० गोपालकृष्ण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०एफ०
3.	के० मधुसूदन रेड्डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०एफ०
4.	के० वेलायुधम	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०ई०
5.	पी०वी०एस० कूर्मानाथ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०डी०
6.	सी० राधाकुमारी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी०
7.	के० राम राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०सी०

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 4/1(1)/2000-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिये गये पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-7-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :

क्रम सं०	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
श्री/श्रीमती/कु०			
1.	पी० बेंकटेश्वर राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
2.	पी० चन्द्रशेकरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

28 फरवरी 2001

सं० 5/1(2)/2001-I—अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न में कार्यभार छोड़ दिया है ।

नाम	पद	निवर्तन की तिथि
श्री/श्रीमती/कु०		
डा० शास्त्री एस०वी०के०	वैज्ञानिक/इंजीनियर—एस० जी०	31-01-2001
के०जी० वल्लभ राव	भण्डार अधिकारी	31-01-2001

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 5/1 (2)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :

नाम	पद	त्यागपत्र की तिथि
श्री/श्रीमती/कु०		
पी० झिनाद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	31-01-2001
अजय कुमार शर्मा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी	25-01-2001
टी. सुजित कुमार रेड्डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	22-12-2000
पी० नील जाणि	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	31-01-2001
संजीव कुमार चौधरी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	19-01-2001
पी० शीला	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	19-01-2001
सी.एस. नागराज	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	08-01-2001
रवि कुमार एन.बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	11-01-2001
कुसुमा. आर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	15-01-2001

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 5/1(2)/2001-1—अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित अधिकारियों ने स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप, प्रत्येक के सामने दिए गए पदों तथा प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के पूर्वाह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :

नाम	पद	कार्यभार छोड़ने की तारीख
श्री/श्रीमती/कु०		
प्रसाद एन० एस०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०	17-1-2001
देशपांडे एम० आर०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०	24-1-2001

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० डी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० डी० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-1-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :

श्री/श्रीमती कु०
राम कुमार केवालिया
एच० बी० पाण्ड्या
किरण एच० हिरपरा
एन० आर० सोनी
देवरा सी० मेहता
के० आर० दवे

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/(1)/2001-I : राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० सी० को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० डी० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं ।

श्री/श्रीमती/कु०

1. जय श्री दलाल
2. अजय कुमार शर्मा
3. ए० आर० पटेल
4. दिनेश मोलखा
5. एस० एल० उपाध्याय
6. डी० जे० भट्ट
7. के० डी० भट्टाचार्य
8. हितेश जे० कोटेचा

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव,

सं० 6/(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिये गये पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं ।

क्रम	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गयी	पद जिस पर पदोन्नति की गयी
सर्व श्री/श्रीमती/कु०			
	राजकुमार अरोरा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० जी
	डॉ० ए० सुब्बाराव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०
	ए० एस० बुध	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०
	जै०जी० कल्याणी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ
	आर०पी० कवेषा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० बी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०
	बल्लभ के० दियानि	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० बी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०

के एस रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में डॉ० सरोज मैटी को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी० के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 5-12-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं ।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 6/1 (2)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में श्री पी० रवि शंकर, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 1-12-2000 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 7/1(2)/2000-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बेंगलूर में श्री उमाशंकर, एस०, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी० का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 29-01-2000 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 7/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बलियमला, तिरुवनन्तपुरम में श्री के० गोपाल कृष्णन को स्टेशन अधिकारी-I के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-10-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 7/1(2)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, बलियमला, तिरुवनन्तपुरम में श्री सी० एच० अप्पाराव, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी० का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 05-01-2001 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 8/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो दूरमिति अनुवर्तन तथा आवेश संचार नेटवर्क, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिये गये पदों पर स्थानापन्न रूप में 01-01-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम श्री/श्रीमती/कु	पद जिससे पदोन्नति की गयी	पद जिस पर पदोन्नति की गयी
1.	पी० सोमा	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० जी०	वैज्ञा०/इंजीनियर-जी०
2.	एम० नारायण राव	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० एफ०	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० जी०
3.	सी० डी० शर्मा	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० एफ०	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० जी०
4.	चि० बी० जी० के० बंगार राजू	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० ई०	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० एफ०
5.	एच० जी० युवसेना	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० डी०	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० ई०
6.	श्याम कृष्ण पाण्डे	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० सी०	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० डी०
7.	एस० श्यामलक्ष्मी	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० सी०	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० डी०
8.	गुरप्पा जे० सी०	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० बी०	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० सी०

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 9/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इन्स्ट्रुमेंट मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम श्री/श्रीमती/कु	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1.	प्रकाश आचार्य	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० सी०	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० डी०
2.	संजीव सी० गौर	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० सी०	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० डी०
3.	जी श्रीनिवास राव	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० बी०	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० सी०
4.	लोखाक्षी एच० सी०	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० बी०	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० सी०
5.	एस० सुरेश बाबु	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० बी०	वैज्ञा०/इंजीनियर-एस० सी०

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 10/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के निम्नलिखित इंजीनियरी प्रभाग, मुख्यालय, बेंगलूर में श्री आर० नोर्विंदन, वैज्ञानिक इंजीनियर-एस०ई० को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०एफ० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 10/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के निम्नलिखित इंजीनियरी प्रभाग में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिये गये पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

क्रम नाम सं० श्री/श्रीमती/कु०	पद जिस पर पदोन्नति की गयी
1. श्री० श्री० आचार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०जी
2. के०आई० अनेकसांडर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०जी
3. जी० के० भट्ट	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस०एफ

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 10/1(1)/2001-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के निम्नलिखित इंजीनियरी प्रभाग, ईएमडी, सैक में श्री पी० दक्षिणामूर्ति वैज्ञानिक/इंजीनियर-एमडी को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई के रूप में दिनांक 01-01-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

सं० 11/1(1)/2001-I : राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो मुख्यालय, बेंगलूर में श्री सुरेश आर० नायक, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस जी को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01-01-2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003 दिनांक 09 मार्च 2001

सं० 3(7)/2000-का० 1—राष्ट्रपति जी ने इस मंत्रालय के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'एफ' को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 18400-500-22400/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 01 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न वैज्ञानिक जी नियुक्त किया है :—

1. श्री ए० बी० पत्की (कर्मचारी कोड सं० 75)
2. श्री ए० बी० साहा (कर्मचारी कोड सं० 78)
3. डा० के०एस० नारी (कर्मचारी कोड सं० 89)

प्रवीण कुमार दत्त, संयुक्त निदेशक

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2001

सं० ए० 32013/1/2001-प्रशा-1(वि०वि०) :—राष्ट्रपति विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग के श्री ए० विजय कुमार, सहायक विधायी परामर्श (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-I) को इस मंत्रालय के विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर उप विधायी परामर्श (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के पद पर कार्य करने हेतु 14 मार्च, 2001 के पूर्वाह्न से 90 दिनों की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं।

यह तदर्थ नियुक्ति श्री ए० विजय कुमार को उप विधायी परामर्श के पद पर नियमित नियुक्ति अथवा उस ग्रेड में बरीयता के लिए सेवा अवधि की शिर्शती का दावा करने का कोई भी हक प्रदान नहीं करती।

एम० दास०, उप सचिव

न्याय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2001।

सं० के० 13024/3/200-यू० एस०-I—भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति श्री अन्तोनी पाकिरराज तथा श्री आल-वन्तार कुलसेकरन को अपने-अपने पदों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उसी बरिष्ठता क्रम में दो वर्ष की अवधि के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

कंपनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-11000, दिनांक 22 जनवरी 2001

सं० पी० एफ० जी० (818)/2001/प्रशा० I—व्यय विभाग के दिनांक 15-12-2000 के कार्यालय आदेश सं० ए-12034/10/99-प्रशा० I के अनुक्रम में भारतीय लागत लेखा सेवा के अधिकारी श्री आई० पी० सिंह, ने 15-1-2001 की पूर्वाह्न से कंपनी कार्य विभाग में संयुक्त निदेशक (लागत) के पद का कार्यभार अगले आदेश तक के लिए संभाल लिया है।

सतपाल, अवर सचिव

दिनांक 6 फरवरी 2001

सं० पी० एफ० जी० (819) 2001-प्रशा०-I—प्रादेशिक तदर्थक कानपुर के कार्यालय में उपनिदेशक (निरीक्षण) के पद से उनका स्थानान्तरण होने पर भारतीय कंपनी विधि सेवा (आई सी एल एस) के बरिष्ठ समयमान (लेखा शाखा) अधिकारी डा० राज सिंह ने 01-02-2001 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक कंपनी कार्य विभाग के मुख्यालय में उपनिदेशक (निरीक्षण) के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

सतपाल, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

दिनांक 14 मार्च 2001

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2001

सं० 20/जी/2373-प्रशा०-1 (क) — राष्ट्रपति, श्री ए० वी० धर्मा रेड्डी (आई० डी० ई० एस०-91) को गृह मंत्रालय में उप सचिव के रूप में दिनांक 18 दिसम्बर, 2000 के पूर्वाह्न में अपने आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

पी० वी० शिवरामन, अवर सचिव

दिनांक 19 मार्च 2001

सं० ए-32014/16/98-प्रशा० 1 (क) — कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनको गृह मंत्रालय संवर्ग में नामित किए जाने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित निजी सचिवों को तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में (वेतनमान 10,000-15,200/-रुपए) उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से नियुक्त करते हैं :—

अधिकारी का नाम	अवधि
से	तक
श्री एच० सी० नारंग	2-2-2001 (पूर्वाह्न) 30-6-2001
श्री पी० दिवाकरन	8-3-2001 (पूर्वाह्न) 30-6-2001

उपरोक्त पदोन्नतियाँ पूर्णतया तदर्थ आधार पर दी गई हैं और यह नियुक्त व्यक्तियों को नियमित पदोन्नति का अधिकार नहीं देती। सरकार को इन तदर्थ पदोन्नतियों को किसी भी समय रद्द करने तथा संबंधित अधिकारियों को उनके पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित करने का पूरा अधिकार है।

पी० वी० शिवरामन, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय।

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2001

सं० 14013/9/99-अ० भा० से०—III—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :—

नाम (सर्वश्री)	बैच	स्थायीकरण की तिथि
वी० आर० पटेल	1987	20-11-96
जी० बी० कोंगवाड	1990	1-2-96
के० आर० शशिधर	1990	29-12-96
सी० एन० सीताराम	1990	6-9-96
जी० एस० नारायणस्वामी	1990	16-11-96
बाबू राम मुदबी	1990	1-12-96

न० वेणुगोपालन, अवर सचिव

सं० 14012/3/2001-अ० भा० से० (1II)—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेस्ट बंगाल संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री रवि इन्द्र सिंह	1994	4-9-96
2.	श्री नीप जैन	1994	5-9-96
3.	श्रीमती नन्दिनी चक्रवर्ती	1994	4-9-96

न० वेणुगोपालन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2001

सं० 14015/12/2000-अ० भा० से० (1)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1947 के विनियम 7 के उप नियम (2) में विहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने, चयन समिति द्वारा 27-12-2000 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा उड़ीसा संवर्ग में 2000 के दौरान एक मौजूदा रिक्ति हेतु तैयार की गई मघालय गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारी श्री सोम्य प्रसाद मिश्र (जन्म तिथि 21-12-1948) के नाम वाली प्रवर सूची को अनुमोदित कर दिया है।

आर० वैद्यनाथन, अवर सचिव

सं० 14015/12/2000-अ० भा० से०—I—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग ने, चयन समिति द्वारा 26-12-2000 को आयोजित अपनी बैठक में, भारतीय प्रशासनिक सेवा उड़ीसा संवर्ग में 2000 के दौरान 4 मौजूदा रिक्तियों हेतु तैयार की गई उड़ीसा राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों वाली प्रवर सूची को अनुमोदित कर दिया है :—

क्रम सं०	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि
1.	विजय कुमार धल	23-04-1949
2.	मायाधर पाणिग्रही	03-02-1947
3.	राहुस बिहारी नायक	18-05-1948
4.	नित्यानंद मोहन्ति	15-03-1947

आर० वैद्यनाथन, अवर सचिव

सं०-14015/29/2000-अ०भा० से०(1)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप नियम (3) में विहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए सच लोक सेवा-आयोग ने, जयन समिति द्वारा 20-10-2000 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा नागालैंड संवर्ग में 2000 के दौरान एक मौजूदा रिक्त हेतु तैयार की गई राज्य सिविल सेवा की सदस्य श्रीमती तोविली सेमा (अनुसूचित जनजाति) जन्म तिथि (25-04-1947) के नाम वाली प्रवर सूची को अनुमोदित कर दिया है।

आर० वैद्यनाथन, अवर सचिव

सं० 14015/33/2000-आ० भा० से०(1)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, सच लोक सेवा आयोग ने जयन समिति द्वारा 14-12-2000 को आयोजित अपनी बैठक में, भारतीय प्रशासनिक सेवा ए०जे०एम०यू०टी० संयुक्त संवर्ग के सच राज्य क्षेत्रों खण्ड में 2000 के दौरान दो मौजूदा रिक्तियों हेतु तैयार की गई सच राज्य सिविल सेवा के सदस्यों (1) श्री जे० पी० राय (जन्म तिथि 27-7-1949) तथा (2) श्रीमती जे० रघुरामन (जन्म तिथि : 11-1-1951) के नाम वाली प्रवर सूची को अनुमोदित कर दिया है।

आर० वैद्यनाथन, अवर सचिव

दिनांक 14 मार्च 2001

सं० 14015/12/2000—अ०भा०से० (1)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, उड़ीसा राज्य सिविल सेवा के सदस्यों सर्वश्री (1) विजय कुमार घल, (2) मायाधर पाणिग्रही, (3) राहुल बिहारी नायक तथा नित्यानन्द मोहन्ती को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिक्षा पर तत्कालीन प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन उड़ीसा संवर्ग में आवंटित करते हैं।

आर० वैद्यनाथन, अवर सचिव

सं० 14015/12/2000-अ०भा०से०(1)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (जयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के विनियम 8 के उप विनियम (i) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिक्षा) नियम 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

राष्ट्रपति, उड़ीसा के गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारी श्री सौम्य प्रसाद मिश्र को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिक्षा पर तत्कालीन प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन उड़ीसा संवर्ग में आवंटित करते हैं।

आर० वैद्यनाथन, अवर सचिव

सं० 14015/29/2000-अ०भा० से० (1)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप नियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, नागालैंड राज्य सिविल सेवा की सदस्य श्रीमती तोविली सेमा को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन नागालैंड संवर्ग में आवंटित करते हैं।

आर० वैद्यनाथन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2001

सं० ए० 22011 /4/98-प्रशा०—राष्ट्रपति, श्री गोविन्द मोहन भा०प्र० से० (सिबिकम - 89) को कमिक और पेशवा राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) के निजी सचिव के रूप में उनकी कार्यविधि को 28 फरवरी, 2001 के पश्चात् 13 मई, 2001 तक अथवा जब तक वे मंत्री जी के निजी सचिव के रूप में रहते हैं अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

राजेश्वर दयाल, अवर सचिव

नई दिल्ली-110067, दिनांक 12 मार्च, 2001

सं० 13016/3/98-प्रशि०-I—राष्ट्रपति, श्री एस० सी० सेन, उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा), सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 26 फरवरी 2001 की पूर्वाह्न से 31 दिसम्बर, 2005 तक या अगले आदेशों तक, इनमें जो पहले हो, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली में, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, संयुक्त निदेशक (परिश्रमात्मक प्रशिक्षण) के रूप में नियुक्त करते हैं,

सुकार सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2001

सं० 13017/39/2000-अ० भा० से०-(I)—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बिहार और तारखण्ड सरकारों की सहमति से सर्व श्री विजय शंकर बुबे, आ० भा० से० (एस० सी० एस० - 85), राम नन्दन प्रसाद, आ० भा० से० (एस० सी० एस० - 90) और आर० के० सिन्हा, आ० भा० से० (एम० सी० एम० - 90) को भारतीय प्रशासनिक

सेवा के धारखण्ड संवर्ग से बिहार संवर्ग के अधीन प्रतिनियुक्ति क अनुमोदन करती है। यह प्रतिनियुक्ति 15-11-2000 (जिस तिथि से धारखण्ड बना) से क्रमशः 31-10-2002, 30-06-2002 तथा 31-07-2001 (उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख) तक है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 2001

सं० 04/पी०बी०/2001—अधिकाधिकारी की आयु प्राप्त होने पर, इस मंत्रालय के निजी सचिव के पद पर कार्यरत श्रीमती एस० रामचन्द्रन 30 अक्टूबर, 2000 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

सी० एस० रणदेव, प्रशासनिक अधिकारी (पी० बी०)

सं० 95/पी०बी०/2001—अधिकाधिकारी की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के निजी सचिव के पद पर कार्यरत श्रीमती लक्ष्मी कोहली 31 जनवरी, 2001 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

सी० एस० रणदेव, प्रशासनिक अधिकारी (पी० बी०)

नई दिल्ली, 26 फरवरी 2001

सं० 07/पीबी/2001—राष्ट्रपति मंत्रालय के ज्ञापन सं० ब्यू/सीएबी/611/2/99 दिनांक 2-2-2001 के अनुसरण में भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV के निम्नलिखित अधिकारी की उनके नाम के सामने लिखी तिथि से भारतीय विदेश सेवा (ख) की सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड II और III में स्थानापन्न नियुक्ति करते हैं :

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख	तैनाती का स्थान
----------	----------------	-------------------	-----------------

1.	श्री आरिफ सईद	1-01-2001	भारत का प्रधान कोसलावास, जहा
----	---------------	-----------	------------------------------

2. उपर्युक्त अधिकारी ने अपने नाम के आगे उल्लिखित तारीख से अनुभाग अधिकारी का पदभार संभाल लिया है।

आर० एस० मलहोत्रा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी)

दिनांक 9 मार्च 2001

सं० 08/पीबी/2001—भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के समेकित ग्रेड II और III के अधिकारी श्री एम० के० शर्मा अपने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन पत्र के स्वीकार हो जाने के परिणामस्वरूप 9 मार्च, 2001 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए और उन्होंने 9 मार्च, 2001 के अपराह्न से विदेश मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी का पद भार छोड़ दिया।

आर० एस० मलहोत्रा, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी)

2—521 GI/2000

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 मार्च 2001

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं० 4/2001(फा०सं०ए 38012/10/2000—प्रशा०-II)—राष्ट्रपति जी सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, समूह "क" से श्री आर० एस० शेखरे, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, मुम्बई, द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए दिए गए नोटिस को दिनांक 1-11-2000 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हैं।

आर० के० मलहोत्रा, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली—110011, दिनांक 13 मार्च, 2001

सं० ए-22013/1/96—संवर्ग—उपसचिव स्तर के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की आवर्तन नीति (रोटेशन पालिसी) के अनुपालन में, जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-12-2000 के कार्यालय ज्ञापन सं० 31/28/2000—ई० ओ० (एम० एम०-I) में संप्रेषित किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय में, श्री विजय कुमार, उप सचिव ने 1 मार्च 2001 की पूर्वाह्न से वाणिज्य विभाग में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस० दास, अवर सचिव

दिनांक 24 जनवरी, 2001

सं० ए-4 (6)/8/2000—ई पी जेड राष्ट्रपति:—द्वारा श्री एन० बिलसन वैयक्तिक सहायक, तटरक्षक मुख्यालय राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर, नई दिल्ली को दिनांक 5-1-2001 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों के होने तक 6500-10,500 रुपये के वेतनमान में विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन, कोचीन के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर संपदा प्रबंधक (समूह "ख") के पद पर नियुक्त किया जाता है।

वी० रामाकृष्णन, अवर सचिव

नई दिल्ली—110011 दिनांक 15 मार्च 2001

सं० ए-42012/1/98—ई-4/सीडीएन :- राष्ट्रपति, श्री ए० के० कुन्दा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पंजाब 66) को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में 01-02-2001 से अध्यक्ष, प्रणाली आयोग और भारत सरकार के पदेन सचिव नियुक्त करते हैं।

गुरमोहन सिंह अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2001

सं० ए-12027/3/95-प्रशासन-कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 फरवरी 2001 के का०शा०सं० 20/2/98-सी०एम०-II (खंड-I) के माध्यम से इस मंत्रालय में उनके स्थानान्तरण के परिणाम स्वरूप श्रीमती अपर्णा बोस, प्रमुख निजी सचिव (तदर्थ), 'उपभोक्ता कार्य' विभाग ने दिनांक 28 फरवरी, 2001 के अपराह्न से कोयला मंत्रालय में उसी पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

प्रकाश चन्द, अवर सचिव

सं० ए-12212/1/2001-प्रशासन-राष्ट्रपति नेहरू युवा केन्द्र संगठन के श्री एम०अमीन को, कोयला राज्य मंत्री (श्री संयद शाहनवाज हुसैन) के सहायक निजी सचिव के पद पर रु० 6500-200-10,500/- के वेतनमान पर दिनांक 8 फरवरी 2001 से मंत्री जी के कार्यकाल तक अथवा मंत्री जी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो, इनमें से जो भी पहले हो, सह-आवधिक आधार पर नियुक्त करते हैं।

प्रकाश चन्द, अवर सचिव

दिनांक 16 मार्च 2001

सं० 12/4/2001-ए०एस०ओ०-राष्ट्रपति जी द्वारा श्री जी०पी०सिंह, भा०प्र०से० (उत्तर प्रदेश:80) को कोयला मंत्रालय में, रु० 18400-500-22400 के वेतनमान में, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर दिनांक 15 मार्च, 2001 (अपराह्न) से दिनांक 20-2-2002 अथवा अगले आदेश, इसमें से जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया जाता है।

प्रकाश चन्द अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 26 फरवरी, 2001

सं० ए-32013/1/98-प्रशा० 1 (ए)--विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में 1-1-96 से तकनीकी सहायक (6500-200-10,500 रु० के वेतनमान में) के 24 पदों को उसी वेतनमान में पदनाम में परिवर्तन कर कनिष्ठ विश्लेषक कर दिए जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित तकनीकी सहायकों को एतद्वारा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से इस विभाग में उनके नाम के पत्रप अंकित निधि से कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में पुनर्नामित किया जाता है :--

नाम	पुनर्नामित किए जाने की तिथि
1	2
1 श्री एच० बी० मिह	01-01-1996
2 श्रीमती इन्दु बाला पुरी	द्वैव
3 श्री एस० के० अप्पलाल	तद्वैव
4 हुमारी र.टा गुप्ता	तद्वैव

1	2
5. श्री जैकब घर्गीस	01-01-1996
6. श्रीमती चन्द्रिका विश्वनाथन	तद्वैव
7. श्री बी० के० त्यागी	तद्वैव
8. डा० नवीन वशिष्ठ	तद्वैव
9. श्री रामे श्याम तिवारी	तद्वैव
10. श्री ए० एम० सिंह	तद्वैव
11. श्री प्रवीण कुमार सोमसुन्दरम	तद्वैव
12. श्री राजीव खन्ना	तद्वैव
13. श्री राजकुमार जोशी	तद्वैव
14. श्री सेथिल नाथन	तद्वैव
15. श्रीमती मालती रमानी	तद्वैव
16. श्री राजकुमार शर्मा	तद्वैव
17. डा० ए० बी० पी० मिश्रा	तद्वैव
18. श्री सोहन बीर सिंह	तद्वैव
19. श्री सुनित मिज	तद्वैव
20. श्री बैंकट खलम कॉम्पेला	तद्वैव
21. श्री जी० हरीश कुमार	06-05-1996
22. श्री बसंत शर्मा	05-03-1997
23. डा० अशोक कुमार सिंह	तद्वैव
24. श्री मोहिन्द्र सिंह	तद्वैव
25. श्री राजीव शर्मा	13-06-1997
26. श्री पवन कुमार	19-03-1998
27. श्री राजेश्वर सिंह	09-08-1999
28. श्री जे० बी० बी० रेड्डी	16-05-2000

2. पदनाम में उपर्युक्त परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :--

(i) ऐसे तकनीकी सहायक, जिन्हें कनिष्ठ विश्लेषक के रूप में पुनर्नामित किया गया है 01-01-1996 की स्थिति के अनुसार नियमित कनिष्ठ विश्लेषकों से सामूहिक रूप से कनिष्ठ होंगे तथा इससे उनकी सामूहिक बरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पदनाम में परिवर्तन के बाद 16-02-2001 की स्थिति के अनुसार कनिष्ठ विश्लेषकों की एक समान बरीयता सूची जारी की जाएगी।

(ii) पदनाम में उपर्युक्त परिवर्तन से अनिश्चित वित्तीय लाभ का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(iii) दिए गए समय में अधिकारियों की कुल संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक नहीं है।

विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 13 मार्च 2001

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2001

सं० एस०एम०/01/032/98—राष्ट्रपति भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्य कर रहे श्री बी० एस० डीगरा, प्रबन्धक, मानचित्र पुनरुत्पादन (कनिष्ठ) (वेतनमान : 8,000-275-13,500 रु०) को पदोन्नत करते हैं तथा उसी संगठन में प्रबन्धक, मानचित्र पुनरुत्पादन (वरिष्ठ) के पद पर 10,000-375-15,200 रु० के वेतनमान में दिनांक 11-01-2001 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

अविनाश दीक्षित, उप सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 2 मार्च 2001

सं० ए०-12012/1/2001-पी-II(.)—राष्ट्रपति, सुश्री सुषमा चौधरी, अ.ई० ए० एस० (जे० के० : 69) को 22,400-525-24,500 रु० के वेतनमान में अपर सचिव के पद पर 1 मार्च, 2001 के पूर्वाह्न से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जे० पी० सिंह, उप सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 मार्च 2001

सं० ए०-19011(25)/97-भा० व० से०-I—केन्द्रीय सरकार से प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अन्तर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में निदेशक श्री पी० बी० गंगोपाध्याय, भारतीय वन सेवा (एम० पी० : 75) की सेवाएं 03 अप्रैल, 2001 के अपराह्न से उनके मूल संवर्ग में वापिस लौटाई जाती हैं।

जे० पी० हलदर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 फरवरी 2001

आवेश

सं० ए०-19012/8/93-पी०-II—सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र मंजूर कर लिए जाने पर, श्री आर० बी० राजन, अनुभाग अधिकारी को 01-09-2000 से इस मंत्रालय के कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

एस० एस० एस० सम्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 मार्च 2001

सं० ए०-19011(8) /97/भा० व० से०-1—केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में मह प्रोफेसर श्री एस० सी० भास्कर, भारतीय वन सेवा (यू०टी०टी० : 86) की सेवाएं 10 मार्च, 2001 के अपराह्न से उनके मूल संवर्ग में वापिस लौटाई जाती हैं।

आर० बी० एस० रावत, निदेशक

सं० ए०-19012/1/96-स्थापना-1—श्रीमती रेनु साहनी घर, भा० प्र० से० (हि०प्र० : 70) ने केन्द्र में अपना कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप 5 फरवरी, 2001 (4 फरवरी, 2001 को अवकाश होने के कारण) के पूर्वाह्न को स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद का कार्यभार छोड़ दिया।

2. 5, 6, 7 और 8 अप्रैल, 2001 (अवकाश होने के कारण) को बाद में जोड़ने की अनुमति के साथ 5-2-2001 से 4-4-2001 तक उनको 59 दिनों का अर्जित अवकाश प्रदान किया गया है। छुट्टी समाप्त होने पर वे हिमाचल प्रदेश सरकार को रिपोर्ट करेंगी।

एस० एस० ओहरी, अवर सचिव

नई दिल्ली-11, दिनांक 8 मार्च 2001

सं० ए०-39012/4/98-सी०एच०एस०-I—राष्ट्रपति, डा० मनवीर सिंह सरना का त्यागपत्र स्वीकार करते हैं, जिन्होंने 18-1-1999 (अपराह्न) से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया समाप्त जाता है।

2. 31-12-1997 से 18-1-1999 की अवधि को "अकार्य-विषय" माना गया है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 14 मार्च 2001

सं० ए०-39012/10/98-सी० एच० एस०-1—राष्ट्रपति, डा० आर० के० जोशी का त्यागपत्र स्वीकार करते हैं, जिन्होंने 28-2-2000 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया समाप्त जाता है।

2. 11-8-96 से 28-2-2000 की अवधि को अकार्य-विषय माना गया है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० सी० 14011/17/98-सी०एच०एम०-1—राष्ट्रपति, डा० मनोज कुमार का त्यागपत्र स्वीकार करते हैं, जिन्होंने 29-9-2000 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया समाप्त जाता है।

2. 24-11-1995 से 29-9-2000 की अवधि को "अकार्य-विषय" माना गया है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 फरवरी 2001

सं० ए०-12023/1/95-भा० चि० प० (स्था०-2) —
राष्ट्रपति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्य कर रहे 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग में उपनिदेशक (संसदीय कार्य) के पद पर श्री के० एस० नागी, अनुभाग अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति को 1-2-2001 से आगे छः माह की अवधि तक या पद के नियमित रूप से भरे जाने तक, जो भी पहले हो, जारी रखते हैं।

कमल दास, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2001

सं० 27-2377/99-स्थापना-1—राष्ट्रपति, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में सचिव श्री भास्कर बरुआ, आई० ए० एस० (असम: 63) को 26 फरवरी, 2001 के अपराह्न में सरकारी सेवा में स्वेच्छिक सेवा नियुक्ति देने की अनुमति देते हैं।

के० रवीन्द्रन, अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2001

सं० 27-2437/2000-स्था०-1—राष्ट्रपति, श्री बी० एस० मन्हास, आई० ए० एस० (राजस्थान: 69) को 7 फरवरी, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए 22,400—24,500/- रुपये के वेतनमान में कृषि मंत्रालय, (कृषि एवं सहकारिता विभाग) अपर सचिव के पद पर नियुक्ति करते हैं।

के० रविन्द्रन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2001

सं० 2-259/91-आ० प्र०—इस विभाग के दिनांक 28-11-2000 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारी श्री के० बी० शास्त्री ने कृषि और सहकारिता विभाग के संयुक्त कार्यालय अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में अपने प्रौन्नति के परिणामस्वरूप 12000—16500 रुपये के वेतनमान में 1-6-1999 (पूर्वाह्न) की बजाए 14-5-1999 (पूर्वाह्न) से उप आर्थिक सलाहकार के पदभाग को ग्रहण किया।

सुकुमार, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

सं० ए०-12022/5/2000-स्था०-1—राष्ट्रपति, श्री जे० कृष्ण किशोर, आई० आर० एम० (आई० टी० : 90) को 13 अक्टूबर,

2000 के पूर्वाह्न से मंत्रियों के निजी सचिवों के लिए स्वी कार्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 27-10-2002 तक अथवा जब तक वे ग्रामीण विकास मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के पद पर कार्य करते हैं अथवा अगले आदेशों तक इनमें से, जो भी पहले हो, उप सचिव के स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एस० बंकेया नायडू) के विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं। केन्द्र में श्री जे० कृष्ण किशोर का कार्यकाल 28-10-1999 से आरम्भ हुआ है।

ए० के० सिंह, निदेशक (प्रशासन)

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2001

सं० ए०-19011/8/2000-स्था० (टी० ए०)—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री अशोक कुमार को जनजातीय कार्य मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में दिनांक 1-2-2001 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

बी० सी० दास, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

दूर संचार विभाग

(एमटीजी-II अनुभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 20 मार्च 2001

सं० 20-2/2001-एसटीजी-II—अत्यंत दुःख के साथ यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित टीईएस/टीटीएस समूह-“ख” अधिकारियों को उनके नाम के सामने वर्गीकी गई तारीखों को निधन हो गया है—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	स्टाफ सं०	सकिल का नाम	निधन की तारीख
1.	के० एन० सीतारमैया, एसडीओटी चिकवास्लापुर	33544	कर्नाटक सकिल बंगलौर	11-08-2000
2.	जे० बसंत पाई, एसडीओटी	15550	कर्नाटक सकिल बंगलौर	20-11-2000
3.	डी० रमण राव, एसडीई बंगलौर, टी डी	100061	कर्नाटक सकिल बंगलौर	26-11-2000
4.	सतीश चन्द्र सक्सेना, एसडीई शाहजहांपुर, टीडी	100199	उ० प्र० (पूर्व) सकिल, लखनऊ	21-12-2000
5.	नंद किशोर चानना, एसडीई	17306	एमटीएनएल, दिल्ली	23-01-2001

राम अवतार, सहायक महानिदेशक (एसजीटी)

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 फरवरी 2001

सं० 13-22/99-एस०पी०जी०—डाक विभाग में डाक सेवा समूह "ख" के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31-01-2001 से सेवानिवृत्त कर दिए गए हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	सकिल जहाँ तैनात थे
(सर्वश्री)			
1.	शेख बंदगी	11-1-1941	आंध्र प्रदेश
2.	एम० एन० पांडेय	1-2-1941	बिहार
3.	भगवान मरांडी	25-1-1941	बिहार
4.	मोहम्मद मुरतजा	8-1-1941	बिहार
5.	रतन चन्द	22-1-1941	दिल्ली
6.	एल०डी० गांधी	10-1-1941	दिल्ली
7.	राजमल राजपुर	24-1-1941	हिमाचल प्रदेश
8.	एम० सार चंद्रन	13-1-1941	कर्नाटक
9.	टी० आर० आर० नायर	21-1-1941	केरल
10.	वी० जी० जोशी	1-2-1941	महाराष्ट्र
11.	एस० सुन्दरम	16-1-1941	तमिलनाडू
12.	मिठू लाल	31-1-1941	उत्तर प्रदेश
13.	वी०आर० कटियार	15-1-1941	उत्तर प्रदेश
14.	सी०एस० बरोदिया	10-1-1941	उत्तर प्रदेश
15.	ए० एन० विश्वास	30-1-1941	पश्चिम बंगाल
16.	बंसीधारी बसक	31-1-1941	पश्चिम बंगाल
17.	एच० सी० लोहानी	17-1-1941	पीटीसी, सहारनपुर
18.	एन० आर० शर्मा	21-1-1941	उत्तर प्रदेश

आर० सी० शर्मा, सहायक महानिदेशक (एस जीपी)

दिनांक 18 फरवरी 2001

सं० 13-30/2000-एसपीजी—राष्ट्रपति सहर्षतापूर्वक भारतीय डाक सेवा समूह "क" के 1965 के बैच के अधिकारी, मेजर जनरल के० के० श्रीवास्तव जो फिलहाल ए पी एस में प्रतिनियुक्त पर हैं, के दिनांक 14-11-2000 और 12-2-2001

के नोटिस को स्वीकार करते हैं और केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अन्तर्गत उन्हें 1-3-2001 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं।

आर० सी० शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 20 फरवरी 2001

सं० 13-15/2000-एसपीजी— भारतीय डाक सेवा के निम्नलिखित अधिकारी 28-2-2001 (अप०) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम
सर्व श्री		
1.	जासंगा	मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर पूर्व सकिल, शिलांग
2.	शेषागिरी राव, एच०	आंध्र प्रदेश सकिल
3.	मुल्की एस० एस०	महाराष्ट्र सकिल
4.	कुलकर्णी जी० एन०	महाराष्ट्र सकिल

आर० सी० शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 1 मार्च 2001

सं० 13-22/99-एसपीजी— इस कार्यालय के दिनांक 13-02-2001 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए श्री वी० जी० जोशी (क्रम सं० 10) का नाम हटा दिया जाए।

आर० सी० शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 9 मार्च 2001

सं० 13-22/99-एसपीजी— इस कार्यालय के दिनांक 13 फरवरी, 2001 की समसंख्यक कार्यालय अधिसूचना के आंशिक संशोधन के अनुसार डाक सेवा समूह "ख" के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम हटा दिया जाए :—

अधिकारी का नाम	दिनांक	सकिल में तैनाती
	13-2-2001 की अधिसूचना की क्रम सं०	
एच० सी० लोहानी	17	डाक प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर
एस० साराचन्द्रन	8	कर्नाटक

आर० सी० शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2001

सं० ईआरबी-1/2001/2/15—श्री आर० के० धूपल, भारतीय रेल यातायात सेवा, महाप्रबंधक, दक्षिण-पूर्व रेलवे को 28-2-2001 के अपराह्न से, अगले आदेशों तक, सदस्य (यातायात), रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

डी० पी० त्रिपाठी, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं सचिव

दिनांक 14 मार्च 2001

सं० ई० (जी० पी०) 99/1/59—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेलों के कार्मिक विभाग के निम्नलिखित 13 ग्रुप 'बी' की कारियों को 19-9-2000 से उनके नाम के साथ दी गई रेलवे में भारतीय रेल कार्मिक सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्ति अनुमोदित करते हैं:—

क्र० सं० अधिकारी का नाम

सर्व/श्री

मध्य रेलवे

1. के० आर० आर० नामर

पूर्व रेलवे

1. अभिताज बटर्जी
2. एस० पी० महतो

उत्तर रेलवे

1. सुदामा राम

पूर्वोत्तर रेलवे

1. पी० के० श्रोवास्त

दक्षिण रेलवे

1. श्रीमती भुवनलक्ष्मी आर०

दक्षिण मध्य रेलवे

1. जी० चेन्नैय्या (अनुसूचित जाति)

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. एस० बी० मजूमदार (अनुसूचित जाति)

पश्चिम रेलवे

1. आर० के० बर्मा

2. एस० के० जेसवानी

3. कमल सिंह

4. श्रीमती पी० गोपीनाथन

5. बी० एल० चौहान (अनुसूचित जाति)

डी० पी० त्रिपाठी, सचिव/रेलवे बोर्ड,

पोत परिवहन मंत्रालय

(स्थापना-1 अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2001

सं०-ए-38012/4/2000-स्था-1—अधिवक्ता की आयु होने पर श्री आई० के० खन्ना, जो पोत परिवहन मंत्रालय में

चीफ ड्राफ्ट्समैन के रूप में कार्य कर रहे थे, 28-2-2001 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

एम० के० राय, अवर सचिव

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2001

सं० ए-11011/14/99-एमए.—राष्ट्रपति, नौवहन महानिदेशालय में रेडियो इंस्पेक्टर श्री के० एच० मेहता को नौवहन महानिदेशालय के अधीन सामुद्रिक वाणिज्यिक विभाग मुम्बई में 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में दिनांक 23 फरवरी, 2001 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक मुख्य रेडियो सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर० एस० बिष्ट, अवर सचिव

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(स्थापना-II अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च, 2001

सं० ए-12025/2/2000-स्थापना-II—राष्ट्रपति, श्री विनय कुमार बंसल को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में दिनांक 5-3-2001 (पूर्वाह्न) से और आगामी आदेशों तक सहायक कार्यकारी अभियंता के वेतनमान रु० 8,000-275-13,500/- में नियुक्त करते हैं।

सी० एल० शर्मा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2001

सं० 7/2001-मि० सं० ए-35018/2/2000-प्रशा० एक—विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 [1948 का 54] की उप धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री बी० डी० लल्ला, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा के अधिकारी, को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (पर्सनल), रु० 22,400-24,500 के वेतनमान में भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव के रूप में 20-2-2001 से उनकी अधिवर्षिता की तिथि तक नियुक्त करते हैं।

बी० सी० काजला, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2001

सं० 6/5/99-गं० बे०-फ० ब० परि०—राष्ट्रपति ने विशिष्ट सुरक्षा ब्यूरो के सब एरिया आर्गनाइजर श्री अपूर्व कुमार नाथ को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 16 फरवरी, 2001 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए 10000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में प्रशासनिक अधिकारी, फरक्का बराज परियोजना के पद पर नियुक्त किया है।

राधे प्रसन्न, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 15th March 2001

No. RS/27(d)/2001/2C-Perl.—The services of Shri Vijoy Saraswat appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of the Chairman, Committee on Government Assurances, Rajya Sabha on co-terminus basis stand terminated w.e.f. the 1st March, 2001.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 8th March 2001

No. PF. 1242(3)/AN-I/GN-4552/2001.—The Speaker is pleased to appoint Shri Babu Ram Kanathia, Director in the scale of Rs. 15100-18300 to the grade of Joint Secretary in the scale of Rs. 18400-500-22400 on ad-hoc basis with effect from 2nd March 2001 until further orders.

G. C. MALHOTRA, Secy. General

New Delhi-110001, the 7th March 2001

No. PF. 1159(3)/AN-I/GN-4546/2001.—The Speaker is pleased to appoint Shri P. C. Choudhary, Chief Editor in scale Rs. 12750-16500 to the grade of Principal Chief Editor in the scale of Rs. 15100-400-18300 with effect from 7th March, 2001 until further orders.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

No. PF. 1259(3)/AN-I/GN-4547/2001.—The Speaker is pleased to appoint Shri Sharda Prasad, Senior Editor in scale Rs. 12000-16500 to the grade of Chief Editor in the scale of Rs. 12750-375-16500 with effect from 7th March, 2001 until further orders.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

No. PF. 1715(3)/AN-I/GN-4548/2001.—The Speaker is pleased to appoint Shri Jyotirmohan Swaroop Vatsa, Editor in scale Rs. 10000-15200 to the grade of Senior Editor in the scale of Rs. 12000-375-16500 with effect from 7th March, 2001 until further orders.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

No. PF. 2010(3)/AN-I/GN-4549/2001.—The Speaker is pleased to appoint Shri Prahlad Munshi Assistant Editor in scale Rs. 8000-13500 to the grade of Editor in the scale of Rs. 10000-325-15200 with effect from 7th March, 2001 until further orders.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 28th February 2001

No. 2/1(1)/2000-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each

Sl. No., Name and Date of Appointment

Shri/Smt./Kum.

1. Kranthi Kumar Pals—29-12-2000
2. Rakesh Kumar—22-12-2000

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 2/1(1)/2000-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SC as Scientists/Engineers-SD in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space in

an officiating capacity with effect from the forenoon of 1-1-2001 and until further orders :

Shri/Smt./Kum.

1. K. V. Bheemeswara Rao
2. M. Janardhana Rao

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 2/1(1)/2000-I.—The President is pleased to appoint Shri Lokesh Garg as Scientists/Engineers-SC in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 13-12-2000 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(1)/2000-I.—The President is pleased to appoint on promotion Smt. K. Usha, Scientist/Engineer-SD as Scientist/Engineer-SE in the Vikram Sarabhai Space Centre Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 13-11-2000 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 3/1(2)/2000-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri S. Pradeep Padman, Scientist/Engineer-SD in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of 29-09-2000.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the SHAR Centre, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each and until further orders :

Sl. No., Name, Post from which promoted, Post to which promoted and Date

Shri/Smt./Kum.

1. T. Gunasekaran, Scientist/Engineer-SE, Scientist/Engineer-SF—01-7-2000
2. V. Nagireddy, Scientist/Engineer-SE, Scientist/Engineer-SF—01-7-2000
3. Tadepalli Sujatha, Scientist/Engineer-SC, Scientist/Engineer-SD—03-7-2000
4. P. Sai Kumar, Scientist/Engineer-SC, Scientist/Engineer-SD—03-7-2000
5. P. Murali Krishna, Scientist/Engineer-SB, Scientist/Engineer-SC—01-7-2000
6. K. Anil Kumar, Scientist/Engineer-SB, Scientist/Engineer-SC—01-7-2000

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SD as Scientists/Engineers-SE in the SHAR Centre, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 1-7-2000 and until further orders.

S/Shri/

1. K. Srinivasa Prasad
2. P. Satyanarayana
3. Ch. S. Sampath Kumar
4. T. R. K. Kameswara Rao
5. V. V. V. Anjaneyulu
6. P. Rajan
7. B. V. Subba Rao

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SF as Scientists/Engineers-SG in the SHAR Centre, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 1-7-2000 and until further orders.

S/Shri/

1. V. Someswara Rao
2. G. Muni Raju
3. PSN Murthy
4. V. Jayaprakash Reddy
5. R. B. Singh
6. N. Hanumantha Rao
7. V. Veerajulu

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineer-SC as Scientists/Engineer-SD in the SHAR Centre, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 1-7-2000 and until further orders:

S/Shri/

1. Dr. S. Sankaran
2. B. Penchalaiah
3. Y. Surya Premraj
4. Kolli Sree Devi
5. M. Murali
6. M. Varadacharyulu
7. T. Varaprasad

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri K. Narayana, Scientists-Engineer-H as Outstanding Scientist in the SHAR Centre, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 1-7-2000 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the SHAR Centre, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity

city with effect from the forenoon of 30-6-2000 and until further orders.

Sl. No., Name and Post to which promoted

S/Shri/

1. S. Lakshmi Narasimhan, Scientist/Engineer-SG
2. G. Gopalakrishna, Scientist/Engineer-SF
3. K. Madhusudhana Reddy, Scientist/Engineer-SF
4. K. Velayudham, Scientist/Engineer-SE
5. P. V. S. Kurmanath, Scientist/Engineer-SD
6. C. Radhakumari, Scientist/Engineer-SC
7. K. Rama Rao, Scientist/Engineer-SC

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 4/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the SHAR Centre, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 1-7-2000 and until further orders.

Sl. No., Name, Post from which promoted and Post to which promoted.

S/Shri/

1. P. Venkateswara Rao, Scientist/Engineer-G, Scientist/Engineer-H.
2. P. Chandrasekaran, Scientist/Engineer-SG, Scientist/Engineer-G.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(2)/2001-I.—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Officers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each.

Sl. No., Name, Post and Date of Superannuation

S/Shri/

1. Dr. Sastry S V K., Scientist/Engineer-SG, 31-1-2001
2. K. G. Vallaha Rao, Stores Officer, 31-1-2001

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(2)/2001-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each.

Sl. No., Name, Post and Date of Resignation

S/Shri/

1. P. Trinadh, Scientist/Engineer-SE, 31-1-2001.
2. Ajay Kumar Sharma, Scientist/Engineer-SD, 25-1-2001
3. T. Smith Kumar Reddy, Scientist/Engineer-SC, 22-12-2000.
4. P. Neela Vani, Scientist/Engineer-SC, 31-1-2001.
5. Sanjeev Kumar Choudhary, Scientist/Engineer-SC, 19-1-2001.
6. P. Sheela, Scientist/Engineer-SC, 19-1-2001.
7. C. S. Nagabai, Scientist/Engineer-SC, 8-1-2001.
8. Ravi Kumar N. V., Scientist/Engineer-SC, 11-1-2001
9. Kusuma R. Scientist/Engineer-SC, 15-1-2001.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 5/1(2)/2001-I.—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, the following Officers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :

Sl. No., Name, Post & Date of Voluntary Retirement

S/Shri

1. Prasad N. S., Scientist/Engineer-SF—17-1-2001.
2. Deshpande M. R., Scientist/Engineer-SD—24-1-2001.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientist/Engineers-SD as Scientist/Engineers-SE in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2001 and until further orders :

Shri/Smt/Kum

1. Ram Kumar Kewalia
2. H. B. Pandya
3. Kiran H. Hirpara
4. N. R. Soni
5. Deval C. Mehta
6. K. R. Dave.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientist/Engineers-SC as Scientist/Engineers-SD in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2001 and until further orders :

Shri/Smt/Kum

1. Jaishree Dalal
2. Ajay Kumar Sharma
3. A. R. Patel
4. Dinesh Nolakha
5. S. L. Upadhyay
6. D. J. Bhatt
7. K. D. Bhattacharya
8. Hitesh J. Kotecha.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from 1-1-2001 and until further orders :

Sl. No., Name, Post from which promoted & Post to which Promoted

Shri/Smt/Kum

1. Rajkumar Arora, Scientist/Engineer-SF—Scientist/Engineer-SG.
2. Dr. A. Subba Rao, Scientist/Engineer-SF—Scientist/Engineer-SF.
3. A. S. Buch, Scientist/Engineer-SE—Scientist/Engineer-SF.
4. J. G. Vachhani, Scientist/Engineer-SE—Scientist/Engineer-SF.
5. R. P. Vaghela, Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC.
6. Vallabh K. Vithani, Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy

No. 6/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint Dr. Saroj Maity as Scientist/Engineer-SD in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space on temporary capacity wef the forenoon of 5-12-2000 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 6/1(2) 2001-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri P. Ravi Shanker, Scientist/Engineer-SD, in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space wef the afternoon of 1-12-2000.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 7/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri K. Gopalakrishnan as Station Officer-I in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 1-10-2000 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 7/1(2)/2000-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Umasankar S., Scientist/Engineer-SC in the Liquid Propulsion Systems Centre, Bangalore of the Department of Space wef the afternoon of 29-1-2001.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 7/1(2)/2001-I.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri CH Apparao, Scientist/Engineer-SD in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space wef the afternoon of 5-1-2001.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy

No. 8/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Telemetry Tracking and Command Network, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity wef the forenoon of the 1-1-2001 and until further orders :

Sl. No., Name, Post from which promoted & Post to which Promoted

Shri/Smt/Kum

1. P. Soma, Scientist/Engineer-SG—Scientist/Engineer-G.
2. M. Narayan Rao, Scientist/Engineer-SF—Scientist/Engineer-SG.
3. C. D. Sharma, Scientist/Engineer-SF—Scientist/Engineer-SG.
4. Ch. V.G.K. Bangara Raju, Scientist/Engineer-SE—Engineer-SF.
5. H. G. Yuvasena, Scientist/Engineer-SD—Scientist/Engineer-SF.
6. Shyam Krishna Pandey, Scientist/Engineer-SC—Scientist/Engineer-SD.
7. S. Santhalakshmi, Scientist/Engineer-SC—Scientist/Engineer-SD.
8. Gurappa J. C., Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy

No. 9/1 (1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the INSAT-Master Control Facility, Hassan of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2001 and until further orders :

Sl. No., Name, Post from which Promoted and Post to which Promoted

1. Prakash Achar Scientist/Engineer-SC—Scientist/Engineer-SD
2. Sanjeev C. Gouf Scientist/Engineer-SC—Scientist/Engineer-SD
3. G. Srinivasa Rao, Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC
4. Lolakshi H. C., Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC
5. S. Suresh Babu, Scientist/Engineer-SB—Scientist/Engineer-SC

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 10/1(1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri R. Govindan, Scientist/Engineer-SF as Scientist/Engineer-SF in the Civil Engineering Division, HQ, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2001 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 10/1 (1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Civil Engineering Division of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2001 and until further orders.

Sl.No., Name and Post to which promoted
Shri/Smt./Kum.

1. B. V. Achar—Scientist/Engineer-SG
2. K. I. Alexander—Scientist/Engineer-SG
3. G. K. Bhatt—Scientist/Engineer-SF

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 10/1 (1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri P. Dakshinamurthy, Scientist/Engineer-SD as Scientist/Engineer-SE in the Civil Engineering Division, EMD, SAC of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2001 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

No. 11/1 (1)/2001-I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri Suresh R. Naik, Scientist/Engineer-SD as Scientist/Engineer-SE in the ISRO Head Quarters, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01-01-2001 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 9th March 2001

No. 3 (7)2000-Pers. I.—The President is pleased to appoint the following Scientists of this Ministry as Scientist-G in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400 in the Ministry of Information Technology with effect from the forenoon of 1st January, 2001.

- (i) Shri A. B. Patki (Emp. No. 075)
- (ii) Shri A. B. Saha (Emp. No. 078)
- (iii) Dr. K. S. Chari (Emp. No. 089)

P. K. DATTA, It Director

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 15th March 2001

No. A. 32013/1/2001-Admn. I (L.D.).—The President is pleased to appoint Shri A. Vijay Kumar, Assistant Legislative Counsel (Grade IV of Indian Legal Service) of the Legislative Department, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, to officiate as Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) on ad-hoc basis in the Legislative Department of this Ministry with effect from the forenoon of 14th March, 2001 for a period of 90 days.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on Shri A. Vijay Kumar any claim whatsoever either for regular appointment as Deputy Legislative Counsel or for counting the service for the purpose of seniority in that grade.

M. DAS, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi, the 5th March 2001

No. K. 13024/3/2000. US. I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Anthony Packiaraj and Shri Alavander Kulasekaran, to be Additional Judges of the Madras High Court, in that order of seniority, for a period of two years each with effect from the date they assume charge of their respective office.

DURGADAS GUPTA, It. Secy.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 22nd January 2001

No. PFG (818)/2001-Ad. I.—In pursuance of Department of Expenditure's Office Order No. A-12034/10/99-Ad. I dated 15-12-2000, Shri IP Singh, an officer of Indian Cost Accounts Service, has assumed charge of the post of Joint Director (Cost) in the Department of Company Affairs with effect from the forenoon of 15-01-2001 and until further orders.

SAT PAL, Under Secy.

The 6th February 2001

No. PFG (819)/2001-Ad. I.—Consequent on his transfer from the post of the Deputy Director (Inspection) in the office of Regional Director, Kanpur, Dr. Raj Singh, a Senior Time Scale (Accounts Branch) Officer of Indian Company Law Service (ICLS) has assumed charge of the post of Deputy Director (Inspection) at the Headquarters of the Department of Company Affairs with effect from the forenoon of 01-02-2001 and until further orders.

SAT PAL, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 16th March 2001

No. 20/G/2373-Ad. I (A).—The President is pleased to appoint Shri A. V. Dharma Reddy, (IDES-91), as Deputy Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 18th December, 2000, (F/N) until further orders.

P. V. SIVARAMAN, Under Secy.

The 19th March 2001

No. A. 32014/16/98-AD. I (A).—Consequent on their nomination to the Ministry of Home Affairs by the Department of Personnel and Training, the President is pleased to appoint the following Private Secretaries of Central Secretariat Stenographers Service as Principal Private Secretaries (Rs. 10,000—15,200/-) on ad-hoc basis, with effect from the dates indicated against each :

S. No., Name of the Officer and From—To

1. Shri H. C. Narang, 02-02-2001 (F/N)—30-06-2001
2. Shri P. Divakaran, 8-3-2001 (F/N)—30-6-2001

2. The above promotion is made on purely adhoc basis and that adhoc promotion will not confer on the appointee any right for regular promotion. The Government reserve the right to cancel at anytime the adhoc promotion and revert the official to the post from which he was promoted.

P. V. SIVARAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS

(DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 9th March 2001

No. 14013/9/99-AIS.III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Karnataka with effect from the dates shown against them :—

S. No., Name, Batch and Date of Confirmation

S/Shri

1. V. R. Patel, 1987—20-11-96
2. G. V. Kongawad, 1990—1-2-96
3. K. R. Shashidhar, 1990—29-12-96
4. C. N. Seetharam, 1990—6-9-96
5. G. S. Narayanaswami, 1990—16-11-96
6. Babu Rao Midbi, 1990—1-12-96

N. VENUGOPALAN, Under Secy.

The 14th March 2001

No. 14012/3/2001-AIS.III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of West Bengal with effect from the dates shown against them :—

S. No., Name, Batch and Date of Confirmation

S/Shri

1. Ravi Inder Singh, 1994—4-9-96
2. Manish Jain, 1994—5-9-96
3. Smt. Nandini Chakraborty, 1994—4-9-96.

N. VENUGOPALAN, Under Secy.

New Delhi, the 12th March 2001

No. 14015/12/2000-AIS (I).—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (2) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1957, the Union Public Service Commission has approved the Select List containing the name of Shri Soumya Prasad Mishra (Date of Birth : 21-12-1948), a member of the Non-State Civil Service of the State of Orissa prepared by the Selection Committee in its meeting held on the 27th December, 2000, towards filling up one existing vacancy in the Indian Administrative Service Orissa Cadre during 2000.

R. VAIDYANATHAN, Under Secy.

No. 14015/12/2000-AIS (I).—In terms of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2000 for Orissa containing the names of the following members of the State Civil Service of the State of Orissa prepared by the Selection Committee in its meeting held on 26-12-2000, towards filling up four existing vacancies in the Indian Administrative Service Orissa Cadre during 2000.

S. No., Name of the Officer & Date of Birth
S/Shri

1. Bijaya Kumar Dhal—23-04-1949
2. Mayadhar Panigrahi—03-02-1947
3. Rahas Bihari Nayak—18-05-1948
4. Nityananda Mohanty—15-03-1947

R. VAIDYANATHAN, Under Secy.

No. 14015/29/2000-AIS(I).—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the 2000 Select List containing the name of Smt. Tovili Sema (SI) (DOB : 25-04-1947), a State Civil Service Officer of the State of Nagaland prepared by the Selection Committee in its meeting held on the 20th October, 2000, towards filling up one existing vacancy in the Indian Administrative Service Nagaland Cadre during the year 2000.

R. VAIDYANATHAN, Under Secy.

No. 14015/33/2000-AIS (I).—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the 2000 Select List containing the names of (1) Shri J. P. Rai (DOB : 27-7-1949) and (2) Smt. J. Raghu-raman (DOB : 11-01-1951), members of the State Civil Service of the Union Territories prepared by the Selection Committee in its meeting held on 14-12-2000, towards filling up two existing vacancies in the Union Territories segment of the Indian Administrative Service Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories (AGMUT) Joint Cadre during 2000.

R. VAIDYANATHAN, Under Secy.

The 14th March 2001

No. 14015/12/2000-AIS (I).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint S/Shri (1) Bijaya Kumar Dhal, (2) Mayadhar Pannigrahi, (3) Rahas Bihari Nayak and (4) Nityananda Mohanty, members of the State Civil Service of Orissa to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Orissa Cadre under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

R. VAIDYANATHAN, Under Secy.

No. 14015/12/2000-AIS (I).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1947 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri Soumya Prasad Mishra, a member of the Non-State Civil Service of Orissa to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Orissa Cadre under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

R. VAIDYANATHAN, Under Secy.

No 14015/29/2000-AIS (I).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Smt Tovili Sema, a member of the State Civil Service of Nagaland to the Indian Administrative Service, on probation with immediate effect until further orders and to allocate her to the Nagaland Cadre under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954

R VAIDYANATHAN Under Secy

New Delhi, the 15th March 2001

No A 22011/4/99-Ad I.—The President is pleased to extend the tenure of Shri Govind Mohan, IAS (SK : 89) as Private Secretary to the Minister of State for Personnel and Pensions (Smt Vasundhara Raje) beyond 28th February, 2001 and upto 13th May, 2001 or till he ceases to be Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is earlier

RAJESHWAR DAYAL Under Secy

New Delhi-110067, the 12th March 2001

No 13016/3/98-Trg I.—The President is pleased to appoint Shri S C Sen, Deputy Secretary (CSS), Ministry of Information & Broadcasting as Joint Director (Perrapatetic Training) in the Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi, on deputation basis, with effect from the forenoon of the 26th February, 2001 to 31st December, 2005 or until further orders whichever is earlier

SUKAR SINGH Under Secy

New Delhi, the 12th March 2001

No 13017/39/2000-AIS(I).—In exercise of the power conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Bihar and Jharkhand, the Central Govt hereby accords approval for deputation of S/Shri Vijay Shankar Dubey, IAS (SCS 85), Ramnandan Prasad IAS (SCS 90) and R K Sinha, IAS (SCS 90) borne on the IAS cadre of Jharkhand for service under the Govt of Bihar with effect from 15.11.2000 (the date on which the State of Jharkhand came into existence) upto 31.10.2002, 30.6.2002 and 31.7.2001 respectively (the date of their retirement on superannuation)

K. K. SHARMA, Desk Officer

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi the 13th February 2001

No 04/PB/2001.—On attaining the age of superannuation, Smt S Ramachandran, Private Secretary in this Ministry retired from Government Service in the afternoon of 30th October, 2000

C S RANDEV, Administrative Officer (PB)

No 05/PB/2001.—On attaining the age of superannuation, Smt Lakshmi Kohli, Private Secretary in this Ministry retired from Government Service in the afternoon of 31st January, 2001.

C S RANDEV, Administrative Officer (PB)

New Delhi, the 26th February 2001

No 07/PB/2000.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officer belonging to Grade IV of the General Cadre of IFS(B) to officiate in Integrated Grades II & III of General Cadre of IFS(B) with effect from date shown

against his name, in terms of Ministry's Memorandum No Q/CAD/611/2/99 of 2nd February, 2001.

S No, Name of the Officer, Date of Promotion & Place of posting

1 Shri Arif Saeed, 1-01-2001—C'GI, Jeddah

2 The above named officer has assumed charge of the post of Section Officer with effect from the date shown against his name

R. S. MALHOTRA, Administrative Officer (PB)

The 09th March 2001

No 08/PB/2001.—Consequent upon acceptance of his request for voluntary retirement, Shri S K Sharma, an officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) has retired from Government Service in the afternoon of 09th March, 2001, and relinquished charge of the post of Section Officer in the Ministry of External Affairs in the afternoon of 9th March, 2001

R. S. MALHOTRA, Administrative Officer (PB)

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 1st March 2001

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

No 4 of 2001, F No A-38012/10/2000-Ad II.—The President is pleased to accept the notice given by Shri R S Shevare, Assistant Commissioner of Customs Mumbai seeking voluntary retirement from the Indian Customs & Central Excise Service, Group 'A' w.e.f 1.11.2000 (F/N) under Rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972)

R K MALHOTRA, Under Secy

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

DEPARTMENT OF COMMERCE

New Delhi 11001, the 13th March 2001

No A 22013/1/96-Cadre.—In pursuance of Rotation Policy of CSS Officers of Deputy Secretary level as conveyed in DOP&Ts O.M No 31/28/2000-EO(MM-I) dated 13.12.2000, Shri Vijay Kumar Deputy Secretary in Ministry of Water Resources has assumed the charge of his duties in Department of Commerce w.e.f the forenoon of 1st March, 2001

S DAS, Under Secy

(EPZ SECTION)

New Delhi, the 24th January 2001

No A 4(6)/8/2000 EPZ.—The President is pleased to appoint Shri N Wilson, PA, Coast Guard Headquarters, National Stadium Complex, New Delhi as Estate Manager (Group 'B') in the office of the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone, Cochin, in the pay scale of Rs. 6500—10,500/- on deputation basis for a period of 3 years or until further orders, with effect from 5-1-2000 (F/N)

V RAMAKRISHNAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi, the 15th March 2001

No A-42012/1/98 E IV/CDN.—The President is pleased to appoint Shri A K Kundra, IAS (PB-66) as Chairman, Tariff Commission and ex-officio Secretary to the Government of India in the Department of Industrial Policy & Promotion with effect from 01-02-2001

G M SINGH Under Secy

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 7th March 2001

No. A-12027/3/95-Admn.—Consequent upon her transfer to this Ministry by Department of Personnel & Training vide their O.M. No. 20/2/98-CS.II (Vol.II) dated 23rd February, 2001. Smt. Aparna Bose, Principal Private Secretary (ad hoc) of Department of Consumer Affairs has assumed charge in the same capacity in Ministry of Coal with effect from the afternoon of 28th February, 2001.

PARKASH CHAND, Under Secy.

The 15th March 2001

No. A 12012/1/2001-Admn.—The President is pleased to appoint Shri M. Amin of Nehru Yuva Kendra Sangathan to the post of Assistant Private Secretary to the Minister of State for Coal (Shri Syed Shah Nawaz Hussain) in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- with effect from 8th February, 2001 on co-terminus basis with the tenure of the Minister or till the Minister requires his services, whichever is earlier.

PARKASH CHAND, Under Secy.

The 16th March 2001

No. 12/4/2001-ASO.—The President is pleased to appoint Sh. D. P. Singh, IAS (UP : 80), as Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Coal in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400/- with effect from 15-3-2001 (A/N), till 20-3-2002 or until further orders, whichever is earlier

PARKASH CHAND, Under Secy

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 26th February 2001

No. A.32013/1 98-Admn.I(A).—Consequent upon re-designation of 24 posts of Technical Assistants (scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-), as Junior Analysts in the same scale of pay in the Department of Science and Technology w.e.f. 01-01-1996, the following Technical Assistants are hereby re-designated with the approval of the competent authority, in this Department, as Junior Analysts w.e.f. the date shown against each :—

Name & Effective date of re-designation.

1. Shri H. B. Singh—01-01-1996
2. Smt. Indu Bala Puri—01-01-1996
3. Shri S. K. Aggarwal—01-01-1996
4. Km. Rita Gupta—01-01-1996
5. Shri Jacob Verughese—01-01-1996
6. Smt. Chandrika Vishwanathan—01-01-1996
7. Shri B. K. Tyagi—01-01-1996
8. Dr. Navin Vasistha—01-01-1996
9. Shri Radhey Shyam Tiwari—01-01-1996
10. Shri A. N. Singh—01-01-1996
11. Shri Praveen Kumar Somasundram—01-01-1996
12. Shri Rajiv Khanna—01-01-1996
13. Shri Raj Kumar Joshi—01-01-1996
14. Shri Senthil Nathan—01-01-1996
15. Smt. Malthi Ramani—01-01-1996
16. Shri Raj Kumar Sharma—01-01-1996
17. Dr. A. B. P. Mishra—01-01-1996
18. Shri Sohan Bir Singh—01-01-1996
19. Shri Sunit Minz—01-01-1996
20. Shri Venkatachalam Kompella—01-01-1996
21. Shri G. Harish Kumar—06-05-1996
22. Shri Basant Sharma—05-03-1997
23. Dr. Ashok Kumar Singh—05-03-1997
24. Shri Mohinder Singh—05-03-1997
25. Shri Rajiv Sharma—13-06-1997
26. Shri Pawan Kumar—19-03-1998
27. Shri Rajinder Singh—09-08-1999
28. Shri J. V. B. Reddy—16-05-2000

2. The above re-designation is subject to the following conditions :—

- (i) The Technical Assistants so re-designated as Junior Analysts shall rank en bloc junior to the regular Junior Analysts who were in position as on 0-01-1996 without disturbing their present inter-se seniority. A fresh common seniority list for Junior Analysts after re-designation as on 16-02-2001 shall be drawn up accordingly.
- (ii) The re-designation mentioned above shall not confer any right to additional financial benefits.
- (iii) Total strength has not exceeded the sanctioned strength at a given time.

VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110016, the 13th March 2001

No. SM/01/032/98.—The President is pleased to appoint Shri B. S. Dhingra, holding the post of Manager, Map Reproduction (Junior) (Pay Scale Rs. 8,000-275-13,500/-) in Survey of India to the post of Manager, Map Reproduction (Senior) in the pay scale of Rs. 10,000-375-15,200/- on promotion in that Department w.e.f. 11-01-2001 (F/N) and until further orders.

AVINASH DIKSHIT, Dy. Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 2nd March 2001

No. A. 12012/1/2001 P.II.(.)—The President is pleased to appoint Ms. Sushma Choudhary, IAS (JK : 69) as Additional Secretary in the scale of pay of Rs. 22400-525-24500/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of the 1st March, 2001.

I. P. SINGH, Dy. Secy.

New Delhi-110003, the 8th March 2001

No. A 19011/25/97-IFS-I.—On completion of his tenure of deputation with the Central Government, the services of Shri P. B. Gangopadhyay, IFS (MP : 75), Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun under Ministry of Environment and Forests are placed back to his parent cadre with effect from the afternoon of 3rd April, 2001.

G. P. HALDAR, Under Secy.

New Delhi-110003, the 28th February 2001

ORDER

No. A.19012/8/93 P.II.—Consequent upon the acceptance of the resignation by the competent authority, Shri R. D. Rajan, Section Officer in the Ministry of Environment & Forests stands relieved of his duties w.e.f. 1-9-2000.

S. S. S. SARMA, Under Secy.

New Delhi-110003, the 2nd March 2001

No. A.19011/8/97-IFS-I.—On completion of his tenure of deputation with the Central Government, the services of Shri C. Bhaskar, IFS (UTT : 86), Associate Professor, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun under Ministry of Environment and Forests, are placed back to his parent cadre with effect from the afternoon of 10th March, 2001.

R. B. S. RAWAT, Director

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DEPTT. OF HEALTH)

New Delhi, the 5th February 2001

No. A. 19012/1/96-Estt.I.—Consequent on completion of her tenure at Centre, Smt. Renu Sahni Dhar, IAS (HP : 70), has relinquished the charge of the post of Joint Secretary in the Department of Health, Ministry of Health and Family Welfare with effect from the forenoon of 5th February, 2001 (4th February, 2001 being closed holiday).

2. She is also granted Earned Leave for 59 days from 5-2-2001 to 4-4-2001 with permission to suffix 5th, 6th, 7th and 8th April, 2001 (being closed holidays). After expiry of her leave she would report to Govt. of Himachal Pradesh.

S. S. OHRI, Under Secy.

New Delhi-11, the 8th March 2001

No. A. 39012/4/98-CHS.I.—The President is pleased to accept the resignation of Dr. Manbir Singh Sarna, who is deemed to have relinquished the post of Senior Medical Officer, of Central Health Service under Government of National Capital Territory of Delhi, with effect from 18-1-1999 (A/N).

2. The period from 31-12-1997 till 18-1-1999 has been treated as DIES-NON.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 14th March 2001

No. A. 39012/10/98-CHS.I.—The President is pleased to accept the resignation of Dr. R. K. Joshi, who is deemed to have relinquished the post of Senior Medical Officer of Central Health Service under Government of National Capital Territory of Delhi, wef 28-2-2000 (F/N).

2. The period from 11-8-1996 till 28-2-2000 has been treated as "DIES-NON".

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. C. 14011/17/98-CHS.I.—The President is pleased to accept the resignation of Dr. Manoj Kumar, who is deemed to have relinquished the post of Senior Medical Officer of Central Health Service under Government of National Capital Territory of Delhi, with effect from 29-9-2000 (F/N).

2. The period from 24-11-1995 till 29-9-2000 has been treated as "DIES-NON".

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

(DEPTT. OF ISM & HOMOEOPATHY)

New Delhi, the 27th February 2001

No. A. 12023/1/95-IISM(E.H).—The President is pleased to continue the ad-hoc appointment of Shri K. S. Nagi, Section Officer in the Ministry of Health & Family Welfare to the post of Deputy Director (Parliament Work) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- in the Deptt. of Indian Systems of Medicine & Homoeopathy for a further period of six months wef 1-2-2001 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

KANWAL DAS, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 26th February 2001

No. 27-2377/99-E.I.—The President is pleased to permit Shri Bhaskar Barua, IAS (AM:63), Secretary, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, to proceed on voluntary retirement from Government Service, wef the afternoon of 26th February, 2001 (A/N).

K. RAVINDRAN, Under Secy.

The 28th February 2001

No. 27-2437/2000-E.I.—The President is pleased to appoint Shri B. S. Minhas, IAS (RJ:67) as Additional Secretary in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation), in the pay scale of Rs. 22,400—24,500/- wef the forenoon of 7th February, 2001, until further orders.

K. RAVINDRAN, Under Secy.

New Delhi, the 5th March 2001

No. 2-239/91-F.A.—In partial modification of this Department's Notification of even number dated 28-11-2000, Shri K. V. Sastry, an IES Officer assumed the charge of the post of Deputy Economic Adviser in the Directorate of Economics and Statistics, an attached office of the Department of Agriculture and Cooperation wef 14-5-1999 (F/N) instead of 1-6-1999 (F/N), consequent on his promotion to Junior Administrative Grade in the pay scale of Rs. 12000—16500/-

SUKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110001, the 18th December 2000

No. A-12022/5/2000 Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri J. Krishna Kishore, IRS (IT:90) as officer on Special Duty to Minister of Rural Development (Shri M. Venkaiah Naidu) wef the forenoon of 13th October 2000 at the level Deputy Secretary for the balance period of his three years tenure as admissible to Private Secretaries to Ministers i.e. upto 27-10-2002 or till he ceases to function as OSD to Minister or until further orders, whichever event takes place the earliest. He counts his tenure at the centre wef 28-10-1999.

A. K. SINGH, Director (Admn.)

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 12th February 2001

No. A-19011/8/2000 Estt.(T.A).—The President is pleased to appoint Shri Asbok Kumar, an Officer of the Central Secretariat Services as Under Secretary in the Ministry of Tribal Affairs wef the forenoon of 1-2-2001 and until further orders.

B. C. DAS, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

(SIG-II SECTION)

New Delhi-1, the 20th March 2001

No. 20-2/2001-STG-II.—It is notified with deep regret that the following TES/TTS Group-B officers expired on the dates mentioned against their names :

Sl. No., Name of the officer, Serial Number, Name of the Circle & Expired on

S/Shri

1. K. N. Seetharamaiah, SDOT, Chickballapur, 33544, KTK Circle, Bangalore—13-8-2000.
2. J. Vasanth Pai, SDH Udipi, 15550, KTK Circle, Bangalore—20-11-2000.
3. D. Ramana Rao, SDE, Bangalore TD, 100061, KTK Circle, Bangalore—25-11-2000.
4. Satish Chandra Saxena, SDE, Shahjahanpur TD, 100199, UP (East) Circle, LW—21-12-2000.
5. Nand Kishore Charana, SDT, 17306, MTNI, Delhi—23-1-2001.

RAM AUTAR
Assistant Director General (SGT)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 13th February 2001

No. 13-22 99-SPG.—The following officers of Postal Service Group 'B' in the Department of Posts have been retired from service w.e.f. 31-01-2001 consequent on attaining the age of superannuation.

S. No. Name of the Officer, Date of Birth & Circle of posting (S/Shri)

1. Sheik Bardagi, 11-01-1941—A.P.
2. M. N. Pandey, 01-02-1941—Bihar
3. Bhakvan Marai, 25-01-1941—Bihar
4. Mohd. Musazz, 02-01-1941—Bihar
5. Rattan Choud, 22-01-1941—Delhi
6. L. D. Gondhi, 10-01-1941—Delhi
7. Rajmai Raju, 24-01-1941—H.P.
8. S. Sarachandran, 13-01-1941—Karnataka
9. T. R. R. Nair, 21-01-1941—Kerala
10. V. G. Joshi, 01-02-1941—Mah.
11. S. Sundaram, 16-01-1941—T.N.
12. Mittoo Lal, 31-01-1941—U.P.
13. B. R. Katiyar, 15-01-1941—U.P.
14. C. S. B. Rajia, 10-01-1941—U.P.
15. A. N. Bhowmik, 20-01-1941—W.B.
16. Bansu Dhari Bera, 31-01-1941—W.B.
17. H. C. Lohani, 17-01-1941—PTC, Saharanpur
18. N. R. Sharma, 21-01-1941—U.P.

R. C. SHARMA, Asstt. Director General (SGP)

The 16th February 2001

No. 13-30/2000-SPG.—The President is pleased to accept the notice dt. 14-11-2000 & 12-02-2001 of Major Gen. K. K. Srivastava an officer of Indian Postal Service Group 'A' of 1965 batch presently on deputation to APS, and to permit him to retire voluntarily from Govt. Service under Rule 48 of CCS (Pension) Rules-1972 w.e.f. 01-03-2001 (F/N).

R. C. SHARMA, Asstt. Director General (SGP)

The 20th February 2001

No. 13-15/2000-SPG.—The following officers of Indian Postal Service will retire on superannuation from Government service on 28-02-2001 (A/N).

Sl. No., Name of the Officer & Designation

S/Shri

1. Zasanga—CPMG, NE Circle, Shillong
2. Seshagiri Rao, H.—Andhra Pradesh Circle
3. Mulki, S. S.—Maharashtra Circle
4. Kullani, C. N.—Malabar Circle

R. C. SHARMA, Asstt. Director General (SGP)

The 1st March 2001

No. 13-22/99-SPG.—In partial modification of this office notification of even no. dated 13-02-2001, the name of Shri V. G. Joshi (S/S) is to be deleted.

R. C. SHARMA, Asstt. Director General (SGP)

The 9th March 2001

No. 13-22 99-SPG.—In partial modification of this office notification of even no. dated 13th February, 2001, the name of following officers of Postal Service Group 'B' may be deleted.

S. No., Name of the officer, Serial No. in Notification dated 13-2-2001 & Circle of Posting

1. H. C. Lohani, 17—PTC, Saharanpur
2. S. Sarachandran, 8—Karnataka

R. C. SHARMA, Asstt. Director General (SGP)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 27th February 2001

No. ERB I/2001/2, 15.—Shri R. K. Thoopal, IRTS, General Manager, South Eastern Railway, is appointed as Member (Traffic) Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India, with effect from the afternoon of 28-02-2001, until further order.

D. P. TRIPATHI, Secy.
Railway Board & Secy.

The 14th March 2001

No. E (GP)/99/1/59.—The President is pleased to approve of the undermentioned 13 Group 'B' officers of Personnel Department of Indian Railways, being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Personnel Service with effect from 19th September, 2000 on the Railway noted against each.

S. No. and Name of the Officer

S/Shri

CENTRAL RAILWAY :

1. K. R. R. Nair

EASTERN RAILWAY

1. Amitava Chatterjee
2. S. P. Mahato

NORTHERN RAILWAY

1. Sudama Ram

NORTH EASTERN RAILWAY

1. P. K. Srivastava

SOUTHERN RAILWAY

1. Smt. Bhuvanlakshmi R.

SOUTH CENTRAL RAILWAY

1. G. Chennaiah (SC)

SOUTH EASTERN RAILWAY

1. S. B. Mazumdar (SC)

WESTERN RAILWAY

1. R. K. Verma
2. S. K. Jeswani
3. Kamal Singh
4. Smt. P. Gopinathan
5. B. L. Chauhan (SC)

D. P. TRIPATHI, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

(ESTT. I SECTION)

New Delhi, the 12th March 2001

No. A-38012/4/2000-E I.—On attaining the age of superannuation, Shri I. K. Khanna, who had been working as Chief Draftsman in the Ministry of Shipping has retired from Govt. service w.e.f. 28-02-2001 (A/N).

M. K. ROY, Under Secy.

(SHIPPING WING)

New Delhi, the 15th March 2001

F. No. A-11011/14/99-MA.—The President is pleased to appoint Shri K. H. Mehta, Radio Inspector, as Senior Radio Surveyor in the Mercantile Marine Department, Mumbai, under the Director General of Shipping, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15200 w.e.f. 23rd February, 2001 (Forenoon) until further orders.

R. S. BISHT, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(ESTT. II SECTION)

New Delhi, the 14th March 2001

No. A-12025/2/2000-E II.—The President is pleased to appoint Shri Vinay Kumar Bansal as Assistant Executive Engineer in the Ministry of Road Transport & Highways.

New Delhi in the pay scale of Rs. 8000-275-13,500/1 w.e.f. 5-3-2001 (F/N) until further orders.

C. L. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 12th March 2001

No. 7/2001 File No. A-35018/2/2000-Adm. I.—In exercise of the powers conferred by SubSection (2) of Section 3 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948)), the Central Government hereby appoints Shri V. D. Lulla, an officer of the Central Power Engineering (Group-A), Service, as Member (Thermal) in the Central Electricity Authority in the pay scale of Rs. 22,400—24,500/- with ex-officio status of Additional Secretary to the Government of India w.e.f. 20-02-2001 till the date of his superannuation or until further orders, whichever event occurs earlier.

V. C. KAJLA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 12th March 2001

No. 6/5/99-GB-FBP.—The President is pleased to appoint Shri Apurba Kumar Nath, an officer of Special Security Bureau, as Administrative Officer in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 on deputation basis in Farakka Barrage Project Distt. Murshidabad, for a period of three years with effect from 16-02-2001 (F/N).

RADHFY SHYAM, Under Secy.